



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 2] नई दिल्ली, जनवरी 22—जनवरी 28, 2012, शनिवार/माघ 2—माघ 8, 1933  
No. 2] NEW DELHI, JANUARY 22—JANUARY 28, 2012, SATURDAY/MAGHA 2—MAGHA 8, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

## रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2012

**का.नि.आ. 02.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1988 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, समेकित रक्षा स्टाफ मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय के अधीन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड्गवासला में रजिस्ट्रार, समूह 'क' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, समेकित रक्षा स्टाफ मुख्यालय राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड्गवासला, रजिस्ट्रार, समूह 'क' के पद भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. रजिस्ट्रार	*01 (2012) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600—39100 रु. और ग्रेड वेतन 6600 रु.	लागू नहीं होता	40 वर्ष से अधिक नहीं <b>टिप्पण 1</b> — केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । <b>टिप्पण 2</b> : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(7)

(8)

(9)

**आवश्यक:**

लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में मास्टर डिग्री ।

(7)

(ii) कार्मिक प्रशासन, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों, अनुदेशों के निर्वचन सहित प्रशासन/स्थापन मामलों के संबंध में पांच वर्ष का कार्य-अनुभव ।

**टिप्पण 1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं ।

**टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(10)

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक सविदा)/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

(11)

प्रतिनियुक्ति/आमेलन (अल्पकालिक सविदा सहित) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/अर्ध-सरकारी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी :-

(क)(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया है ;

(ii) जो वेतन बैंड-3, 15600—39100 रु. और ग्रेड वेतन 5400 रु. या समतुल्य के पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों ;

(iii) जो वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. और ग्रेड वेतन 4800 रु. या समतुल्य के पदों पर छह वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों ; और

(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।

**टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

**टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होंगी ।

**टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 (वह तारीख) जिसका छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना वितारित की गई है, एवं पूर्व

	(11)
	<p>किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इसके जहां एक सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ सेपूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हैं।</p>
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) :—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय —अध्यक्ष</li> <li>2. प्रधान निदेशक, समेकित रक्षा स्टाफ मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय —सदस्य</li> <li>3. निदेशक (कार्मिक), समेकित रक्षा स्टाफ मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय —सदस्य</li> </ol>	<p>प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

[ फा. सं. 15723/आर आर/रजिस्ट्रार/एन डी ए/आई डी एस(पर्स)/29/रक्षा (नियुक्तियां) ]  
अंगना राम, अवर सचिव

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 16th January, 2012

**S.R.O. 02.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Defence Academy (Group 'A' post) Recruitment Rules, 1988, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Registrar, Group 'A' in the National Defence Academy, Khadakwasla under Headquarters Integrated Defence Staff, Ministry of Defence, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Headquarters Integrated Defence Staff, National Defence Academy, Khadakwasla, the Registrar, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, Classification and Pay Band and Grade Pay/Pay Scale.**—The number of post, its classification and the Pay Band and Grade Pay/Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment, to the said post, age limit and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rules.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and GradePay	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Registrar	1* (2012) *(Subject to variation dependent on work load).	General Central Service (Group 'A', Gazetted) Non-Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600–39100 + Grade pay Rs. 6600	Not applicable	Not exceeding 40 years <b>Note 1:</b> Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions of orders issued by the Central Government. <b>Note 2:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division of the State of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of the State of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)

#### Essential :

(i) Master's Degree in any subject from a recognized University .

(ii) Five year's working experience in dealing with administration/establishment matters including personal administration, interpretation of Rules, Regulations, instructions issued by the Government from time to time.

**Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

(7)

**Note 2 :** The qualification regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption a percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.

(10)

(11)

By deputation (Including Short Term Contract)/absorption failing which by direct recruitment.

**Deputation/absorption (Including Short Term Contract):**

Officers of the Central/State Government/Union Territories/Universities/Recognised Research Institutes/Public Sector Undertaking/Autonomous Body/Semi Government or Statutory Organisations:

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; Or

(ii) with five years regular service in posts in Pay Band-3 of Rs. 15600—39100 with Grade Pay of Rs.5400 or equivalent or

(iii) Six years regular service in posts in Pay Band-2 of Rs. 9300—34800 with Grade Pay of Rs. 4800 or equivalent ; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under Column 7.

**Note 1 :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation /department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

**Note 2 :** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding Fifty Six years as on the closing date of receipt of applications.

**Note 3 :** For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay / pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay /pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

(12)

(13)

**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :**

Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

- (i) Joint Secretary, Ministry of Defence —Chairman
- (ii) Principal Director,  
Headquarters Integrated Defence Staff,  
Ministry of Defence —Member
- (iii) Director (Pers),  
Headquarters Integrated Defence Staff,  
Ministry of Defence —Member

[F. No. 15723/RRs/Registrar/NDA/IDS(PERS)29/D(Apptts.)]

ANGNA RAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2012

**का.नि.आ. 03.**—सांविधिक नियामक आदेश 25 दिनांक 22 दिसंबर, 2000 का अधिक्रमण और सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) की धारा 08 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार एतद्वारा संलग्न तालिका के कालम (1) में उल्लिखित प्रत्येक ऐसे अफसर को निर्देश देती है जो मिलिट्री संगठन को कमांड कर रहे हैं, और जो केन्द्र सरकार के मतानुसार किसी ब्रिगेड से कम नहीं है इस अधिनियम के अंतर्गत, वह ऐसे अफसर के रूप में, उक्त अधिनियम के अधीन आने वाले व्यक्तियों और उक्त अफसर के अधीन सेवारत कार्मिकों के संबंध में दी गई उक्त तालिका के कालम (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेगा।

तात्ति	
अफसर	शक्तियां
(1)	(2)
1. कमांडेंट, सेना अस्पताल, (रिसर्च एवं रेफरल) दिल्ली कैंट	डिवीजन के कमांडिंग अफसर को प्रदत्त शक्तियां
2. कमांडेंट, कमान अस्पताल, (दक्षिण कमान), पुणे	
3. कमांडेंट, कमान अस्पताल, (पूर्व कमान) कोलकाता	
4. कमांडेंट, कमान अस्पताल, (पश्चिम कमान) चण्डीमंदिर	
5. कमांडेंट, कमान अस्पताल, (मध्य कमान), लखनऊ	
6. कमांडेंट, कमान अस्पताल, (उत्तर कमान) मार्फत 56 ए पी ओ	
7. कमांडेंट, सैनिक अस्पताल (कार्डियोलॉजी थेराप्यूटिक सेंटर) पुणे	
8. कमांडेंट, सैनिक अस्पताल, जोधपुर	
9. कमांडेंट, सैनिक अस्पताल, किरकी	
10. कमांडेंट, सैनिक अस्पताल, सिकंदराबाद	
11. कमांडेंट, 151 बेस अस्पताल	
12. कमांडेंट, 155 बेस अस्पताल	
	ब्रिगेड के कमांडिंग अफसर को प्रदत्त शक्तियां

(1)	(2)
<ol style="list-style-type: none"> <li>13. कमांडेंट, 158 बेस अस्पताल</li> <li>14. कमांडेंट, सैनिक अस्पताल, अंबाला</li> <li>15. कमांडेंट, सैनिक अस्पताल, जालंधर</li> <li>16. कमांडेंट बेस अस्पताल, दिल्ली कैंट</li> <li>17. कमांडेंट, सैनिक अस्पताल, आगरा</li> <li>18. कमांडेंट, सैनिक अस्पताल, बरेली</li> <li>19. कमांडेंट, सैनिक अस्पताल, देहरादून</li> <li>20. कमांडेंट, सैनिक अस्पताल, जबलपुर</li> <li>21. कमांडेंट, सैनिक अस्पताल, मेरठ</li> <li>22. कमांडेंट, सैनिक अस्पताल, नामकुम</li> <li>23. कमांडेंट, सैनिक अस्पताल, रूड़की</li> <li>24. कमांडेंट, बेस अस्पताल, लखनऊ</li> <li>25. कमांडेंट, 166 सैनिक अस्पताल,</li> <li>26. कमांडेंट, 167 सैनिक अस्पताल,</li> <li>27. कमांडेंट, 92 बेस अस्पताल</li> <li>28. कमांडेंट, बेस अस्पताल, बेरकपुर</li> <li>29. कमांडेंट, सैनिक अस्पताल, इलाहाबाद</li> <li>30. कमांडेंट, सैनिक अस्पताल, झांसी</li> <li>31. कमांडेंट, 150 जनरल अस्पताल, राजौरी</li> <li>32. कमांडेंट, 174 सैनिक अस्पताल, भटिंडा</li> <li>33. कमांडेंट, 159 जनरल अस्पताल, फिरोजपुर</li> <li>34. कमांडेंट, सैनिक अस्पताल, अहमदाबाद</li> <li>35. कमांडेंट, सैनिक अस्पताल, शिलांग</li> <li>36. कमांडेंट, सैनिक अस्पताल, देवलाली</li> <li>37. कमांडेंट, सैनिक अस्पताल, अहमदनगर</li> <li>38. कमांडेंट, सैनिक अस्पताल, भोपाल</li> <li>39. कमांडेंट, सैनिक अस्पताल, मथुरा</li> <li>40. कमांडेंट, सैनिक अस्पताल, विलिंगटन</li> <li>41. कमांडेंट, सैनिक अस्पताल, ग्वालियर</li> <li>42. कमांडेंट, सैनिक अस्पताल, महु</li> <li>43. कमांडेंट, सैनिक अस्पताल, चेन्नई</li> <li>44. कमांडेंट, सैनिक अस्पताल, नसीराबाद</li> <li>45. कमांडेंट, सैनिक अस्पताल, पटियाला</li> </ol>	<p>इ के कमांडिंग अफसर को प्रदत्त शक्तियां</p>



46. कमांडेंट, सैनिक अस्पताल, जयपुर  
 47. कमांडेंट, 153 जनरल अस्पताल,  
 मार्फत 56 ए पी ओ

[सं. 41776/ए जी/डीवी-1/4831/डी (ए जी)]

नवीन कुमार, निदेशक (ए जी)

New Delhi, the 12th January, 2012

**S.R.O. 03.**—In supersession of SRO 25 dated 22 December, 2000 and in exercise of the powers conferred by Section 8 of the Army Act, 1950 (46 of 1950), the Central Government hereby prescribes each of the officers mentioned in column (1) of the Table here to annexed, commanding a military organisation, which in the opinion of the Central Government is not less than a Brigade, as the officer who shall exercise, as regards persons subject to the said Act and serving under the officer aforesaid, the powers under that Act as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

**TABLE**

Officers	Powers
(1)	(2)
1. Commandant, Army Hospital, (Research & Referral) Delhi Cantt	
2. Commandant, Command Hospital, (Southern Command), Pune	
3. Commandant, Command Hospital, (Eastern Command), Kolkata	
4. Commandant, Command Hospital, (Western Command), Chandimandir	
5. Commandant, Command Hospital, (Central Command), know	The Powers of the Officer Commanding a Division
6. Commandant, Command Hospital, (Northen Command, C/o 56 APO	
7. Commandant, Military Hospital, (Cardiology Therapeu Centre) Pune	
8. Commandant, Military Hospital, Jodhpur	
9. Commandant, Military Hospital, Kirkee	
10. Commandant, Military Hospital, Secunderabad	
11. Commandant, 151 Base Hospital	
12. Commandant, 155 Base Hospital	
13. Commandant, 158 Base Hospital	
14. Commandant, Military Hospital, Ambala	
15. Commandant, Military Hospital, Jalandhar	The Powers of the Officer Commanding a Brigade
16. Commandant, Base Hospital, Delhi Cantonment	
17. Commandant, Military Hospital, Agra	
18. Commandant, Military Hospital, Bareilly	
19. Commandant, Military Hospital, Dehradun	
20. Commandant, Military Hospital, Jabalpur	
21. Commandant, Military Hospital, Meerut	

(1)	(2)
<p>22. Commandant, Military Hospital, Namkum</p> <p>23. Commandant, Military Hospital, Roorkee</p> <p>24. Commandant, Base Hospital, Lucknow</p> <p>25. Commandant, 166 Military Hospital</p> <p>26. Commandant, 167 Military Hospital</p> <p>27. Commandant, 92 Base Hospital</p> <p>28. Commandant, Base Hospital, Barrackpore</p> <p>29. Commandant, Military Hospital, Allahabad</p> <p>30. Commandant, Military Hospital, Jhansi</p> <p>31. Commandant, 150 General Hospital, Rajouri</p> <p>32. Commandant, 174 Military Hospital, Bathinda</p> <p>33. Commandant, 159 General Hospital, Ferozpur</p> <p>34. Commandant, Military Hospital, Ahmedabad</p> <p>35. Commandant, Military Hospital, Shillong</p> <p>36. Commandant, Military Hospital, Devlali</p> <p>37. Commandant, Military Hospital, Ahmednagar</p> <p>38. Commandant, Military Hospital, Bhopal</p> <p>39. Commandant, Military Hospital, Mathura</p> <p>40. Commandant, Military Hospital, Wellington</p> <p>41. Commandant, Military Hospital, Gwalior</p> <p>42. Commandant, Military Hospital, Mhow</p> <p>43. Commandant, Military Hospital, Chennai</p> <p>44. Commandant, Military Hospital, Nasirabad</p> <p>45. Commandant, Military Hospital, Patiala</p> <p>46. Commandant, Military Hospital, Jaipur</p> <p>47. Commandant, 153 General Hospital, C/o 56 APO</p>	<p>The Powers of the Officer Commanding a Brigade</p>
<p>नई दिल्ली, 16</p> <p><b>का. नि. आ. 04.</b>—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शास (4) के अनुसरण में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एकीकृत मुख अधिक कर्मचारी-वृन्द ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है,</p> <p>New Delhi, the 16</p> <p><b>S.R.O. 04.</b>—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official purpose of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies Integrated Headquarters of the Ministry of Defence (Navy), New Delhi under the working knowledge of Hindi.</p>	<p>[No. 41776/AG/DV-1/4831/D(AG)]</p> <p>NAVEEN KUMAR, Director (AG)</p> <p>मरी, 2012</p> <p>प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम य रक्षा मंत्रालय (नौसेना), नई दिल्ली को जिसके 80 प्रतिशत से अधिसूचित करती है।</p> <p>[सं. 1(1)/2011-रक्षा(रा.भा.1)]</p> <p>उपमन्यु चटर्जी, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण)</p> <p>January, 2012</p> <p>UPAMANYU CHATTERJEE, Jt. Secy.</p>